

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017—श्रावण 11, शक 1939

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

संशोधन

क्र. एफ 19-21-2017-बारह-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, दिनांक 25 जुलाई 2017 को जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 19-21-2017-बारह-1 में ग्राम धौरा के स्थान पर ब्लॉक धौरा त्रुटिवश मुद्रित हो गया है, में कृपया संशोधन करते हुए हिन्दी में ग्राम धौरा एवं अंग्रेजी में Village Dhaurra पढ़ा जावे.

संशोधन

क्र. एफ 19-19-2017-बारह-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, दिनांक 25 जुलाई 2017 को जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 19-19-2017-बारह-1 में ब्लॉक पाली त्रुटिवश मुद्रित हो गया है, में कृपया संशोधन करते हुए हिन्दी में ग्राम पाली एवं अंग्रेजी में Village Pali पढ़ा जावे.

संशोधन

क्र. एफ 19-16-2017-बारह-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, दिनांक 25 जुलाई 2017 को जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 19-16-2017-बारह-1 में हिन्दी की अधिसूचना में लौह अयस्क के स्थान पर हीरा खनिज त्रुटिवश मुद्रित हो गया है, में कृपया संशोधन करते हुए हिन्दी में लौह अयस्क पढ़ा जावे.

राकेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.